### KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED

(Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED)

Regd. Office & Works: Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104 Website: www.ainfrastructure.com, Email: cs@kanoria.org, CIN: L25191RJ1980PLC002077

Ref No.: KEIL/2024-25 Date: 31.05.2024

The Manager (Listing & Corporate Services) Bombay Stock Exchange Ltd. Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai Maharashtra -400001

**BSE Code: 539620** 

Sub: – Audited Financial results for the quarter/year ended 31.03.2024- Publication in Newspaper

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication dated 31.05.2024 (Financial Express, English & Bhaskar, Hindi editions) of financial results for the quarter/year ended 31.03.2024.

Kindly take on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For KANORIA ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED (Formerly known as A INFRASTRUCTURE LIMITED)

Lokesh Mundra Company Secretary

# FINANCIAL EXPRESS

## CRESCENT FINSTOCK LIMITED

CIN: L51100GJ1997PLC032464 Regd. Office: Regd Office: A/12, Snehkunj CHS, Resi.Plot No 374, Koparli Road, G. I. D. C. Vapi - 396195, Gujarat Phone No.: 022 -6188 7600; Email id: crescentfinstock@yahoo.com website: www.crescentfinstock.com Extract of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

Standalone

| Particulars   | Quarter<br>ended<br>31.03.2024 | Quarter<br>ended<br>31.03.2023 | Year<br>ended<br>31.03.2024 | Year<br>ended<br>31.03.2023 | Quarter<br>ended<br>31.03.2024 | Quarter<br>ended<br>31.03.2023 | Year<br>Ended<br>31.03.2024 | Year<br>Ended<br>31.03.2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Total income from operations (net)  |                                | 1.0                            | 11,82                       | 7.25                        | 887.33                         | 131.05                         | 2,159.54                    | 2,095.53                    |
| Net Profit / (Loss) for the period (befor Tax,<br>Exceptional and Extraordinary Items)  | (4.43)                         | (3.97)                         | (24.48)                     | (18.53)                     | 173.32                         | (97.30)                        | 817.03                      | 96.72                       |
| Net Profit / (Loss) for the period (befor Tax,<br>after Exceptional and Extraordinary Items)  | (4.43)                         | (3.97)                         | (24.48)                     | (18.53)                     | 173.32                         | (97.30)                        | 817.03                      | 96.72                       |
| Net Profit / (Loss) for the period (after Tax,<br>after Exceptional and Extraordinary Items)  | (4.43)                         | (3.97)                         | (24.48)                     | (18.53)                     | (33.04)                        | (91.65)                        | 610.67                      | 102.37                      |
| Total Comprehensive Income for the period<br>[Comprising Profit / (Loss) for the period<br>(after tax) and Other Comprehensive<br>Income (after tax)] | (3.12)                         | (3.91)                         | (22.27)                     | (18.47)                     | 9.89                           | (276.00)                       | 420.47                      | (155.74)                    |
| Paid up Equity Share Capital  | 1000 1000                      | 3 VA 1/2                       | 30 - 78                     | 100.77 - 20                 | 9 9                            | 01 17019                       |                             |                             |
| (Face Value of Rs. 10/- eatch) Reserves (excluding Revaluation Reserve  | 783.85                         | 722.35                         | 783.85                      | 722.35                      | 783.85                         | 722.35                         | 783.85                      | 722.35                      |
| as shown in the Balance Sheet of previous year)<br>Earning Per Share (of Rs. 10/- each)<br>(not annualised):  | *1                             | 38                             | 2,322.64                    | 2,308.62                    | 3.4                            | 30                             | 3,769.14                    | 3,997.95                    |
| (a) Basic   | (0.06)                         | (0.06)                         | (0.31)                      | (0.26)                      | (0.42)                         | (1.27)                         | 7.79                        | 1,42                        |
| (b) Diluted   | (0.06)                         | (0.06)                         | (0.31)                      | (0.26)                      | (0.42)                         | (1.27)                         | 7.79                        | 1.42                        |

Regulations, 2015. The full format of the financial result is available on the website of MSEI (www.msei.in) and on the Company's website(www.crescentfinstock.com)

Place : Mumbai

For Crescent Finstock Limited Vidyadhar More Wholetime Director & CFO

(Rs. In Lakh except EPS)

Consolidated

## Kanoria Energy & Infrastructure Limited (Formerly Known as A Infratsructure Limited)

Regd. Office & Works: Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan), Phone: 01482-286102, FAX: 01482-286104 Website: www.ainfrastructure.com, Email Id: cs@kanoria.org, CIN: L25191RJ1980PLC002077

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS EOD THE QUARTED AND VEAR ENDED ON 31 03 2024

| FUR THE QUARTER   | AND YEAR E     | NUED ON 31.0. | 3.2024            |                     | (Rs. in Lacs)   |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|   |                | Quarter Ended | 1                 | Year I              | Ended           |
| Particulars   | Audited        | Unaudited     | Audited           | Audited             | Audited         |
| ***************************************                       | 31.03.2024     | 31.12.2023    | 31.03.2023        | 31.03.2024          | 31.03.2023      |
| Total Income from Operations (net)                            | 7783.97        | 7656.86       | 9225.20           | 34900.78            | 31612.38        |
| Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities                    | 20202000       | V 2001000     | 216776-000        | Manual Section 2015 | MTANIM IN       |
| (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)         | 36.93          | 190.60        | (64.94)           | 1054.57             | 1337.67         |
| Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax         |                |               |                   |                     |                 |
| (after Exceptional and/or Extraordinary items#)               | 36.93          | 190.60        | (64.94)           | 1054.57             | 1337.67         |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax                    | 0000000        | SOUTHWAY.     | 75X15-1-43X-      | - Western           | 20.5000000      |
| (after Exceptional and/or Extraordinary items#)               | 7.26           | 143.95        | (35.39)           | 786.06              | 954.68          |
| Total other Comprehensive Income for the period               | (0.92)         | 3.01          | 5.91              | 3.76                | 6.07            |
| Total Comprehensive Income for the period                     |                |               |                   |                     |                 |
| (Comprising Net Profit/(Loss) for the period (after tax) and  | 1000077        | VID966604     | Asces, W          | 985185069           | // MODEL (MARK) |
| Other Comprehensive Income (after tax)                        | 6.34           | 146.96        | (29.48)           | 789.82              | 960.75          |
| Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)               | 4264.57        | 4264.57       | 4264.57           | 4264.57             | 4264.57         |
| Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the        |                |               |                   |                     |                 |
| Balance Sheet of previous year)                               | 150            | 94            | 돼                 | 4,757.34            | 4,010.17        |
| Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each) |                | 07 (ST = 20)  | V. Conservation V | .000014             | 27.780          |
| Basic   | 0.01           | 0.17          | (0.04)            | 0.92                | 1.12            |
| Diluted:  | 0.01           | 0.17          | (0.04)            | 0.92                | 1,12            |
| Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each)  | 50 40 50 50 50 | 240           | 502250c           | 2082                | 8558            |
| Basic:  | 0.01           | 0.17          | (0.04)            | 0.92                | 1.12            |
| Diluted:  | 0.01           | 0.17          | (0.04)            | 0.92                | 1.12            |
| - C5C-14C-14  |                |               |                   |                     |                 |

- 1. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on
- The above results of the company have been audited by the statutory auditors and have issued an unqualified audit opinion on the same. The
- figures for the quarter ended 31.03.2023 and 31.03.2024 are the balancing figures between the audited figures of the full financial year and the unaudited year to date figure upto the third quarter of the respective financial years.
- The Board has recommended dividend @ 1% i.e Re. 0.05 per equity share for the financial year 2023-24 subject to approval of shareholder at the Ensuing Annual General Meeting of the company
- The Board has recommended dividend @ 5% on redeemable Preference Shares for the financial year 2023-24 The Company has only one operating segment i.e., A.C. Sheets and Pipes.
- Figures for the previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ainfrastructure.com) For and on behalf of the Board of Direcors

(Sanjay Kumar Kanoria)

Place: New Delhi

whatsoever.

Date: 30.05.2024

Managing Director DIN: 00067203

## **EITA INDIA LIMITED**

Regd Office: 20B, Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata - 700069 Email: eita.cal@eitain.com, Website: www.eitain.com Phone No. 033-22483203. CIN: L51109WB1983PLC035969

### Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

|   | Occasion                                  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Occupant                                    | Parathanner                                    | The House of                                   |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| PARTICULARS   | Quarter<br>ended<br>31.03.2024<br>Audited | Quarter<br>ended<br>31.03.2023<br>Audited   | Quarter<br>ended<br>31.12.2023<br>Unaudited | For the year<br>ended<br>31.03.2024<br>Audited | For the year<br>ended<br>31.03.2023<br>Audited |  |
| Total Income from operations (net)  | 14210.24                                  | 16424.33  | 13342.71                                    | 59033.48                                       | 60343.64                                       |  |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/<br>or Extraordinary items)  Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional | 107.19                                    | 309.37  | 228.64                                      | 680.40   | 613.95   |  |
| and/or Extraordinary items)   | 107.19                                    | 309.37  | 228.64                                      | 680.40   | 613.95   |  |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional<br>and/or Extraordinary items)  | -165.38                                   | 139.03  | 228.64                                      | 407.83   | 394.55   |  |
| Total Comprehensive Income for the period (Compromising   |   |   |   |  | 2004.50  |  |
| Profit/(Loss) for the period and Other Comprehensive Income)  | -201.21                                   | 125.98  | 228.64                                      | 372.00   | 381.50   |  |
| Paid-up Equity Share Capital  | 259.28                                    | 259.28  | 259.28                                      | 259.28   | 259.28   |  |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the   |   |   |   |  |  |  |
| Balance Sheet of previous year)   | 828                                       | 1.5   |   | 1383   | - 1  |  |
| Earning Per Share (of Rs. 10/- each)  |   |   |   |  |  |  |
| Basic:  | -7.76                                     | 4.86  | 8.82  | 14.35  | 14.71  |  |
| Diluted:  | -7.76                                     | 4.86  | 8.82  | 14.35  | 14.71  |  |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclousre Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.cse-india.com and on the Company's website: www.eitain.com

By order of the Board For EITA India Limited Arvind Kumar Lohia Place: Kolkata Wholtime Director Date: 30th May, 2024 DIN NO. 01563152

# **IKAT EXPORTS PRIVATE LIMITED**

Regd Off: 501, 5th Floor Forum Mart, Kharavela Nagar, Khordha, Bhubaneswar - 751007, Orissa CIN- U70100OR2004PTC007641, Website: www.ikatexports.com STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31. 2024

| S.   | Particulars Particulars  | Qtr ended  | Qtr ended  | Qtr ended  | Year ended | Year ended |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| No.  |  | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
|      |  | Audited    | Un-audited | Audited    | Audited    | Audited    |
| 1    | Total Income from Operations   | 33.97      | -          | -          | 33.97      | -          |
|      | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)  | 10.94      | (2.55)     | (2.66)     | 3.35       | (4.18)     |
|      | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)   | 10.94      | (2.55)     | (2.66)     | 3.35       | (4.18)     |
|      | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)  | 10.10      | (2.55)     | (1.62)     | 2.51       | (3.14)     |
|      | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] |            | (2.55)     | (1.62)     | 2.51       | (3.12)     |
| 6    | Paid-up equity share capital   | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       |
| 7    | Reserves excluding Revaluation Reserves  | 0.20       | (2.62)     | (2.30)     | 0.20       | (2.30)     |
|      | Networth   | 1.20       | (1.62)     | (1.30)     | 1.20       | (1.30)     |
|      | Paid up Debt Capital   | 2,108.48   | 2,089.63   | 1,875.57   | 2,108.48   | 1,875.57   |
|      | Debt Equity Ratio  | 2108:1     | 2090:1     | 1876:1     | 2108:1     | 1876:1     |
|      | Earning Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-  |            |            |            |            |            |
|      | 1. Basic :   | 101.00     | (25.50)    | (16.20)    | 25.07      | (31.47)    |
|      | 2. Diluted :   | Š          | ii :       | į.         |            |            |
|      | Capital Redemption Reserve   | -          | -          | -          | -          | -          |
|      | Debenture Redemption Reserve   | j -        | - ·        | -          | - :        | -          |
|      | Debt Service Coverage Ratio  | 1.56:1     | NA         | NA         | 1.17:1     | NA         |
| 15   | Interest Service Coverage Ratio  | 1.56:1     | NA         | NA         | 1.17:1     | NA         |
| lote | S:   |            | SY.        |            |            |            |

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with BSE Limited ("Stock Exchange") under Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the Financial Results are available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.
- Previous year figures have been regrouped and/or reclassified, wherever necessary.

Place: Bhubaneswar Date: 30th May, 2024 On Behalf of the Board of Directors Sd/- Rohit Raj Modi (Director) (DIN: 00180505)

(Rs. in Lacs)

# **CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED**

Regd Office: A-2, OPP. UDOYG BHAWAN, TILAK MARG, C-SCHEME, JAIPUR RAJASTHAN 302005 CIN: L23201RJ1986PLC003704 • Email: cs.conpetco@gmail.com; conpetco@gmail.com Website: www.contol.in • Phone No: 0141-2222232

|   |                   | Quarter end                    | Year ended                                    |               |                                   |
|---|-------------------|--------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| Particulars   | 3 Months<br>Ended | Preceding<br>3 Months<br>Ended | Corresponding<br>3 Months in<br>previous year | Year<br>ended | Year ended<br>in previous<br>year |
|   | 31.03.2024        | 31.12.2023                     | 31.03.2023                                    | 31.03.2024    | 31.03.2023                        |
|   | Audited           | Unaudited                      | Audited                                       | Audited       | Audited                           |
| Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period   | 1881.5            | 916.14                         | 2631.75                                       | 5302.91       | 9249.60                           |
| (before tax, Exceptional and/ or extraordinary items).<br>Net Profit / (Loss) for the period before tax   | 157.11            | 98.96                          | 243.96  | 384.85        | 548.30                            |
| (after Exceptional and/ or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax  | 157.11            | 98.96                          | 243.96  | 384.85        | 548.30                            |
| (after Exceptional and/ or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) | 157.11            | 98.96                          | 243.96  | 384.85        | 548.30                            |
| and other Comprehensive Income (after tax)<br>Equity Share Capital  | 140.17            | 74.07                          | 176.03  | 273.31        | 394.29                            |
| (Face value per Share Rs. 5/- per Share)<br>Reserve excluding Revaluation Reserve   | 278.03            | 278.03                         | 278.03  | 278.03        | 278.03                            |
| Earnings Per Share<br>Basic   | 2,52              | 1,33                           | 3.59  | 4.92          | 8,00                              |
| Diluted:  | 2.52              | 1.33                           | 3.59  | 4.92          | 8.00                              |

- The above Financial Results of the company for the quarter and year ended March 31st, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 30th May, 2024.
- The Company has business segment 'Lubricants & Grease Manufacturing & Distribution, Incineration Service, Turnkey Projects Figures in respect of the previous year/period have been rearranged /regrouped wherever necessary to correspond with the figures of the current
- The financial Result are prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 (as amended) as prescribed under section 133 of the companies act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable and in terms of Regulation 33 of
- the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations 2015 and SEBI circular dated 5 July, 2016 5. Previous year EPS has been restated on 55,60,624 shares of Rs 5/-each at par value
- 630000 convertible warrants have been issued to the promoters on preferential basis are not considered for calculating as approval for listing is awaited For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Place: Jaipur Madan Lal Khandelwal (Chairman & Managing Director) DIN: 00414717 Date: 30.05.2024





TAKE SOLUTIONS LIMITED Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com, Website: www.takesolutions.com

CIN: L63090TN2000PLC046338 **Extract of Consolidated Audited Financial Results** for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

| (₹ | In Million | except per | share data) |  |
|----|------------|------------|-------------|--|
|    | 3 months   | Year       | 3 months    |  |

| SI.<br>No. | PARTICULARS  | ended<br>Mar 31, 2024 | ended<br>Mar 31, 2024 | ended<br>Mar 31, 2023 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |  | (Audited)             | (Audited)             | (Audited)             |
| 1          | Revenue from operations  | 132.06                | 656.08                | 375.38                |
| 2          | Exceptional Items  | 928.21                | 931.83                | 71.40                 |
| 3          | Profit /(Loss) before tax for continuing operation                                 | (1,107.63)            | (1,183.90)            | (61.81)               |
| 4          | Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation                               | -                     | -                     | (498.85)              |
| 5          | Profit /(Loss) after tax   | (1,106.14)            | (1,196.20)            | (559.62)              |
| 6          | Equity Share Capital   | 146.22                | 146.22                | 146.22                |
| 7          | Total comprehensive income   | (1,104.09)            | (1,196.28)            | (542.39)              |
| 8          | Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted | (7.56)<br>(7.56)      | (8.18)<br>(8.18)      | (3.83)<br>(3.83)      |
| F          | inancial Results of TAKE Solution  | s Limited (St         | andalone Inf          | ormation)             |
| 1          | Revenue from operations  | -                     | 54.21                 | 147.93                |
| 2          | Other income   | (124.91)              | (116.24)              | 74.88                 |
| 3          | Profit /(Loss) before tax for continuing operation                                 | (2,008.90)            | (2,032.43)            | 40.11                 |
| 4          | Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation                               | -                     |                       |                       |
| 5          | Profit/(Loss) after tax  | (2,014.88)            | (2,072.51)            | 41.23                 |
| 1.         | The Audited Standalone and Cons and year ended March 31, 2024 ir                   |                       |                       |                       |

Company') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on May 30, 2024. The above results have been audited by the Statutory auditors of the Company. The Statutory Auditors have issued a modified opinion. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 05, 2016.

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.takesolutions.com

For and on Behalf of the Board of Directors Srinivasan H.R.

31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.202

Year Ended

Date: May 30, 2024 Chairman for the meeting dated May 30, 2024

**PARTICULARS** 

4 EPS for the period (Rs.)

(not annualised)

Diluted

Place: Chennai

### CENTURY EXTRUSIONS LIMITED Email: century@centuryextrusions.com

Website: www.centuryextrusions.com Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656 CIN: L27203WB1988PLC043705 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Audited Unaudited Audited Audited Audited PART-1 Revenue from operation 8017 37510 Other Income Total Income from 37565 37236 9249 9551 8030 operation (1+2) Expenses 6340 29410 28969 6479 8087 a) Cost of materials consume Changes in Inventories of finished goods, work in (109) 365 216 485 progress and stock in trade 397 235 Employee benefits expense 592 1776 255 936 Finance Cost e) Depreciation and 335 4676 61 869 305 4230 amortisation expense 1389 1108 Other expenses 7742 36225 9038 36508 Total Expenses Profit(+)/ Loss(-) before 1011 exceptional items (3-4) 288 1057 147 Exceptional Items (32)(32)Profit(+)/ Loss(-) before 243 256 141 1089 tax (5-6) Tax Expenses 108 (15) 1) Current tax (2) Deferred tax (27)Net Profit(+)/ Loss(-) after 194 48 745 597 115 Tax (7-8) Other Comprehensive (22)50 45 Income/ (Loss) Total Comprehensive Income 165 192 26 790 for the period (IX+X) 12 Paid-up equity share capital 800 (Face Value of Rs 1/- each) 800 800 3 Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

PARTICULARS

0.14

0.24

0.24

0.06

0.06

0.93

0.93

31-Mar-2024 31-Mar-2023

Audited

0.75

(Rs. in Lacs

Audited

| 1  | ASSETS<br>Non-Current Assets                                  |   |            |
|----|---|---|------------|
| 11 | a) Property, Plant & Equipment                                | 2757                                    | 2246       |
|    | b) Capital Work-in-progress                                   | 39                                      | 2240       |
|    | c) Intangible Assets  | 27                                      | 3          |
|    | d) Right of use Assets  | 154                                     | 205        |
|    | e) Intangible Assets under Development                        | 0.000                                   | 13         |
|    | i) Loans  | 36                                      | 33         |
|    | ii) Other Financial Assets                                    | 8                                       | 6          |
|    | f) Deferred Tax Assets (Net)                                  | 6                                       | 26         |
|    | g) Other Non-Current Assets                                   | 1203                                    | 676        |
|    | Sub total Non-Current Assets                                  | 4230                                    | 3208       |
| 85 | Current Assets  |   |            |
|    | a) Inventories  | 3963                                    | 3279       |
|    | b) Financial Assets   |   |            |
|    | i) Trade Receivable   | 3535                                    | 3419       |
|    | ii) Cash & Cash Equivalents                                   | 1056                                    | 806        |
|    | iii) Other Bank Balances                                      | 557                                     | 261        |
|    | iv) Loans   | 13                                      | 10         |
|    | v) Other Financial Assets                                     | 83                                      | 23         |
|    | c) Current Tax Assets (Net)                                   |   | 3          |
|    | d) Other Current Assets                                       | 2488                                    | 2281       |
|    | Sub total Current Assets                                      | 11695                                   | 10082      |
|    | TOTAL ASSETS  | 15925                                   | 13290      |
| r. | EQUITY AND LIABILITIES  |   |            |
| Į, | Equity  | 5430000                                 |            |
|    | a) Share Capital  | 800                                     | 800        |
|    | b) Other Equity (Reserve & Surplus)                           | 6505                                    | 5715       |
|    | Total Equity  | 7305                                    | 6515       |
| Ų  | Liabilities   | 200000                                  | 10000      |
|    | Non-Current Liabilities                                       |   |            |
|    | a) Financial Liabilities                                      | 10000000                                | 01903      |
|    | i) Borrowings   | 430                                     | 711        |
|    | ii) Other Financial Liabilities                               | 39                                      | 40         |
|    | b) Long term Provisions                                       | 22                                      | 33         |
| Ŕ  | Sub-total Non-Current Liabilities                             | 491                                     | 784        |
| Ŷ  | Current Liabilities   |   |            |
|    | a) Financial Liabilities                                      | 200400                                  | 2000       |
|    | i) Borrowings   | 4377                                    | 3958       |
|    | ii) Trade Payable   | *************************************** |            |
|    | total o/s dues of creditors micro and small enterprises       | 7                                       | 100        |
|    | total o/s dues of creditors other than micro and              | 2946                                    | 1107       |
|    | small enterprises   | 2846                                    | 1197       |
|    | iii) Other Financial Liabilities b) Other current liabilities | 28<br>793                               | 132        |
|    | c) Short-term provisions                                      | 793<br>40                               | 491<br>213 |
|    | d) Current Tax Liabilities (net)                              | 45                                      | 210        |
|    | Sub-total Current Liabilities                                 | 8129                                    | 5991       |
|    | Total Liabilities   | 15925                                   | 13290      |

30th May 2024 for the guarter and year ended 31st March 2024 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May 2024 The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.

The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on Company's

website at www.centuryextrusions.com Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is a decrease in the profit of the Company by Rs.30.18 lakhs for the year ended 31st March 2024.

The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto 31st March 2024 and the unaudited published year to date figures upto 31st December 2023 being the dates of the end of the third quarter of financial year respectively which were subject to limited review. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and

measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder

> For Century Extrusions Limited Vikram Jhunjhunwala

financialexp.epapr.in

New Delhi

and the other accounting principles generally accepted in India.

Chairman and Managing Director DIN :- 00169833

नाम दिनेश पुत्र हनुमानाराम विश्नोई उम्र 25 साल निवासी राजाला नाडा पीलवा थाना लोहावट जिला जोधपुर बताया। गाड़ी में प्लास्टिक के काले रंग के 15 कट्टे भरे हुए मिले। उन कट्टों में 304 किलो अवैध डोडा-पोस्त पाया गया। पलिस ने आरोपी कैलाश पुत्र मांगीलाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। जप्त डोडा-पोस्त की बाजार कीमत 60 लाख रुपए है। उक्त प्रकरण की जांच पंडेर थानाधिकारी कमलेश मीणा करेंगे।



में नाली की सफाई नहीं होने से है। इसके बावजूद भी कोई सुनने लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन को तैयार नहीं हैं। मोहम्मद हुसैन, नालियां जाम हो जाती हैं। इसका परवीन बानो, मुबारिक हुसैन, गंदा पानी सड़क पर फैल जाता . छोटू लाल बैरवा, ताराचंद ने मांग है। लोगों कहना है कि पार्षद को की है कि रोजाना समय पर सफाई शिकायत करने के बावजूद भी कर्मचारी आए और यहां की सड़क समस्या का समाधान नहीं हुआ के साथ नालियों की सफ़ाई करें है। नालियों के जाम होने से तांकि बीमारियां फैलने का खतरा मक्खी, मच्छर पैदा होते हैं।

भीलवाड़ा । आमजन को सुचारू रूप विधायक अशोक कोठारी ने जलदाय विभाग एवं चंबल प्रोजेक्ट के अधिकारियों की विधायक कार्यालय में चंबल परियोजना के अधिशाषी अभियंता विनोद गर्ग उपस्थित हए। बैठक में वर्तमान पेयजल व्यवस्थाओं और अमृत-2 के तहत हो रहे सर्वे के लिए चर्चा हुई। जिन कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा

अधीनस्थ स्टाफ देकर से पेयजल उपलब्ध हो इसको लेकर उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने को लेकर अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए। निजी क्षेत्र की कॉलोनी बैठक ली। जलदाय विभाग के जहां पेयजल की लाइन नहीं हैं वहां अधीक्षण अभियंता राजपाल सिंह और पनघट योजना के प्रस्ताव तैयार करें। चंबल परियोजना से वंचित 47 कॉलोनियों को शामिल किया जाएं। डीपीआर जल्द तैयार की जाए। मीडिया प्रभारी सत्यम शर्मा ने बताया कि बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा प्रदीप

## प्रशासन ने 12 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया



भारकर संवाददाता पंडेर

जामोली यंग मुमेंट क्लब के सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने की क्योंकि कुछ लोगों ने स्व मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन जमीन पर पुराने पट्टे ब दिया था। गुरुवार को जहाजपुर अतिक्रमण कार्रवाई रोव तहसीलदार रिव कमार मीणा के थी। नेतत्व में टीम जामोली गांव जहाजपुर, पहुंची। पांच स्कूलों की 12 बीघा पुलिस थाने के जाब जमीन से अतिक्रमण हटाने की तहसीलदार ने कार्रवाई की। नायब तहंसीलदार अतिक्रमण हटाने सत्यनारायण आचार्य ने बताया कि जामोली के यंग मुमेंट क्लब के सदस्यों व शाहपुरा कलेक्टर सत्यनारायण आन को ज्ञापन देने पर 8 फरवरी को जहाजपर तहसीलदार के सानिध्य में पांच स्कूलों की 32 बीघा भूमि जहांजपुर, गिरदावर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। तब 20 बीघा भूमि से पंडेर, अतिक्रमण हटा दिया था। बाकी सीताराम गुर्जर -र सुबह दम पर अतिक्रमियों द्वारा पट्टे बताने व अधिकारी जामोली,

खातेदारी भूमि पर फसले हो कारण प्रशासन को अतिक्रमण को छोड़ना पड़

पंडेर साथ मैदान कार्यवाही शुरू की। इस मौके वि कुमार जहाजप्र नायब राम मीणा तहसीलदार पंडेर, र अधिकारी सहायक विकास कि कुमार जामोली, धाकड, हेमराज मी पटवारी. भरणीकला विकास नाचार्य स्कल कृषि भूमि के समीप अनिल सोमावत मौजद र

## Kanoria Energy & Infrastructure Limited

Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan), Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104 Website: www.ainfrastructure.com, Email ld: cs@kanoria.org.

CIN: L25191BJ1980PLC002077

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

(Rs. in Lacs)

| EATHAUT OF OTHER OHADTER  | AND VEAR EN                                 | <b>DED ON 31.03</b>  | .2024  |                       | The same of the sa |  |
|---|---|----------------------|--|-----------------------|--|--|
| FOR THE GUARTER   | AND YEAR ENDED ON 31.03.2024  Quarter Ended |                      |  | Year Ended            |  |  |
| Particulars   | Audited                                     | Unaudited 31.12.2023 | Audited<br>31,03,2023  | Audited<br>31.03.2024 | Audited<br>31.03.2023  |  |
|   | 31.03.2024<br>7783.97                       | 7656.86              | 9225.20  | 34900.78              | 31612.38   |  |
| Total Income from Operations (net)  | 1103/91                                     | 7000.00              |  |                       |  |  |
| Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities<br>(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)   | 36.93                                       | 190.60               | (64.94)  | 1054.57               | 1337.67  |  |
| Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)   | 36.93                                       | 190.60               | (64.94)  | 1054.57               | 1337.67  |  |
| Not Profit/(Loss) for the period after tax  | 7.26  | 143.95               | (35.39)  | 786.06                | 954.68   |  |
| (after Exceptional and/or Extraordinary Items#) Total other Comprehensive Income for the period   | (0.92)                                      | 3.01                 | 5.91   | 3.76                  | 6.07   |  |
| Total Comprehensive income for the period<br>(Comprising Net Profit/(Loss) for the period (after tax) and<br>Other Comprehensive Income (after tax) | 6.34  | 146.96               |  | 789.82                | 960.75<br>4264.57  |  |
| Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)   | 4264.57                                     | 4264.57              | 4264.57  | 4264.57               | 4204.51  |  |
| Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the  | -   |                      |  | 4,757.34              | 4,010.17   |  |
| Balance Sheet of previous year)  Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each Basic:  | 0.01  | 0.17<br>0.17         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 0.92<br>0.92          | 1.12<br>1.12   |  |
| Diluted: Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each Basic:   | THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN          |                      | CONTRACTOR OF THE PARTY  | 0.92<br>0.92          | 1  |  |

rate: 30.05.2024

1. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on

The above results of the company have been audited by the statutory auditors and have issued an unqualified audit opinion on the same. The figures for the quarter ended 31.03.2023 and 31.03.2024 are the balancing figures between the audited figures of the full financial year and the unaudited year to date figure upto the third quarter of the respective financial years.

The Board has recommended dividend @ 1% i.e Re. 0.05 per equity share for the financial year 2023-24 subject to approval of shareholder at

The Board has recommended dividend @ 5% on redeemable Preference Shares for the financial year 2023-24

The Company has only one operating segment i.e., A.C. Sheets and Pipes.

Figures for the previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ainfrastructure.com)

For and on behalf of the Board of Direcors

(Sanjay Kumar Kanoria) Managing Director DIN: 00067203

से मीत

डा थाना

क्त का

हाउस या उसे खूब । पेट पर जार रुपए के लिए मनोज ने करके 30

दिलवाए।

ोपी ड्रिल

लगे। तब

र पैसे देने

आरोपी रात

कर आए।

कायत नहीं

पेलाई करते काटने से । एएसआई बताया कि ास निवासी ाया। जहरीले ह अचेत हो के निजी